

V8-14186  
16/6/04

भारत सरकार मुद्रण R-9731  
दे विवांक. 21/4/04  
REGD. NO. D.L-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

10. 4.00  
30  
Dept. 150  
CRB-220

सं. 156 ]  
No. 156 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2004/CHAITRA 6, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2004

पूरा विवांक

प्रभाति  
रा. वि. 2. 2. 2

सा.का.नि. 223(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

## अनुसूची

### सीपीटी कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) तृतीय संशोधन विनियम, 2004

मामू. अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के तहत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के साथ कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल सी पी टी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1987 का संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक -

इन विनियमों को सीपीटी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) तृतीय संशोधन विनियम, 2004 कहा जा सकेगा।

2. कोलकाता पत्तन न्याय कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1987 में --

(क) विनियम 4 में, पक्षों का वर्गीकरण

(i) खंड (1) (ख) में वर्णित अंक "रु. 1980/-" को "रु. 15100/-" (या जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) खंड 2 (क) में वर्णित अंक "रु. 1679/-" तथा "1980/-" को क्रमशः रु. 11975/- (या जैसा समय-समय पर संशोधित हो) तथा रु. 15100/- (या जैसा समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) खंड 3 (1) में वर्णित अंक "रु. 927/-" तथा "रु. 1679/-" को क्रमशः "रु. 7330/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) तथा "रु. 11975/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iv) खंड 4 में वर्णित अंक "रु. 927/-" को "रु. 7330/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) नया विनियम तथा विनियम 8(22) (iii) को इस प्रकार शामिल किया जाएगा :-

विनियम 8(22)(iii) - जब कभी जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट जांच के निष्कर्ष के बाद प्रस्तुत करता है किसी अपराधी को सभी दोषों या किसी एक आरोप का दोषी ठहराते हुए जिसके लिए कोई विशेष सजा का प्रस्ताव हो या न हो, तो दोषी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि पाने का हकदार है ताकि अगर चाहे तो वह उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध, रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने का अवसर प्राप्त कर सके ।

बशर्ते कि अगर अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं इस जांच का संचालन कर रहे है तो यह रिपोर्ट दोषी को दी जागी अपेक्षित नहीं है ।

(ग) विनियम 8 क (1)(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

अनुशासनिक प्राधिकरण अगर स्वयं जांच अधिकारी नहीं है तो वे जांच रिपोर्ट व दोषी के निष्कर्षों के बाद जांच के निष्कर्षों के कारणों को लिखित में दर्ज करने के उपरान्त आगे की जांच व रिपोर्ट के लिए जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं तथा जांच अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार आगे की कार्यवाही के लिए बढ़ सकते हैं ।

(घ) विनियम 8 क 3 में शब्द "आगे का" को अंतिम पंक्ति में शब्द "किसी" के बाद तथा शब्द "अवसर" के पहले शामिल किया जा सकता है ।

(ड) अनुसूची क तथा ख के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

अनुसूची 'क'

क्रम सं०	कर्मचारी की श्रेणी	सक्षम प्राधिकरण जो दंडित आरोपित करते है तथा वे दंड जो वे आरोपित करसकते हैं(विनियम 7 के खंड (1) से (IX) के संदर्भ सहित)	अपील हेतु प्राधिकरण	
1	2	3	4	5
1.	महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा 1 के खंड 1क द्वारा पूरित पद	अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार	11 खंड तक सभी	केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार
2.	ग.प.नू अधि निम्न, 1963 की धारा 24(1)(क) द्वारा पूरित सभी के अलावा श्रेणी-1 पद जिनका वेतन क्रमशः दो स्तर/चार स्तर श्रेणी-1 प्रवेश वेतन से ऊपर है या केडीएस/एचडीसी के कर्मचारियों के मामले में ऊपर है।	उपाध्यक्ष अध्यक्ष	11 के 11 तक सभी	अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार
3.	अन्य सभी श्रेणी-1 व श्रेणी-1 के पद जो क्रम सं० 1 तथा 2 में शामिल नहीं है।	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष
4.	श्रेणी-III	विभागाध्यक्ष केडीएस/ जी एम एचडीसी	सभी	उपाध्यक्ष
5.	श्रेणी-IV	विभागाध्यक्ष केडीएस/ जी एम एचडीसी	सभी	उपाध्यक्ष

अनुसूची-ख

क्र.सं०	कर्मचारी का विवरण	नियुक्ति प्राधिकरण
1.	महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 24 की उप-धारा 1 के खंड क द्वारा पूरित पद	केन्द्रीय सरकार
2.	म प न् अधिनियम, 1963 की धारा 24 1 क द्वारा पूरित वे पदों के अलावा श्रेणी-1 पद जिनका वेतनमान श्रेणी-1 प्रवेशमान से क्रमशः 2 स्तर /चार स्तर अधिक है या केडीएस/ एचडीएस के कर्मचारियों के मामले में अधिक हो।	अध्यक्ष
3	श्रेणी-1 व श्रेणी-11 के अन्य सभी अधिकारी।	उपाध्यक्ष, <u>ह/को</u>
4.	श्रेणी-111 व IV	कोलकाता बोदी प्रणाली विभागाध्यक्ष तथा हल्दिया बोदी परिसर में महाप्रबंधक।

[मिसिल सं. पीआर-12016/6/98-पीई-1]

टिप्पणी :

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

प्रधान विनियम यथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील विनियम, 1987 दिनांक 10 अगस्त, 1987 के जी एस आर सं० 700 ई के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील प्रथम संशोधन विनियम, 1988 का प्रकाशन दिनांक 20 अप्रैल, 1988 के जी एस आर सं० 474 ई के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुए थे तथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील द्वितीय संशोधन विनियम, 1992 का प्रकाशन दिनांक 27 मार्च, 1992 के जी एस आर सं० 372 ई के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में हुआ था।

**MINISTRY OF SHIPPING**

(Ports Wing)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2004

**G.S.R. 223(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE**

**CPT EMPLOYEES' (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL)  
3<sup>RD</sup> AMENDMENT REGULATIONS, 2004**

In exercise of powers conferred by Section 28 of MPT Act, 1963 (38 of 1963) and with sanction of the Central Government under Sub-Section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations to amend the CPT Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987.

1. Short Title -

These Regulations may be called the CPT Employees' (Classification, Control & Appeal) Third Amendment Regulations, 2004.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 -

- (a) In Regulation 4, Classification of posts

- (i) The figures "Rs.1980/-" appearing in Clause (1) (b) shall be submitted by "Rs.15100/- (or as may be revised from time to time)".
- (ii) The figures "Rs.1679/-" and "Rs.1980/-" appearing in Clause (2) (a) shall be substituted by "Rs.11975/-" (or as may be revised from time to time)" and "Rs. 15100/- (or as may be revised from time to time)" respectively.
- (iii) The figures "Rs.927/-" and Rs.1679/-" appearing in Clause 3(a) shall be substituted by "Rs.7330/- (or as may be revised from time to time)" and "Rs.11975/- (or as may be revised from time to time)" respectively.
- (iv) The figure "Rs.927/-" appearing in Clause (4) shall be substituted by "Rs.7330/- (or as may be revised from time to time)".

- (b) A new Regulation viz. Regulation 8 (22) (iii) shall be inserted as follows :

Regulation 8(22)(iii) – Whenever the enquiry officer has furnished a report to the disciplinary authority at the conclusion of the enquiry holding the delinquent guilty of all or any of the charges with proposal for any particular punishment or not, the delinquent is entitled to a copy of such report for having an opportunity to make a representation if any, against said report before the disciplinary authority within fifteen days from the date of receipt of said report.

Provided that no such report is required to be given to the delinquent if the enquiry is conducted by the disciplinary authority himself.

- (c) Regulation 8A(1)(i) shall be substituted by following :

“The disciplinary authority if it is not itself the enquiry authority, may on perusal of the enquiry report and representation, if any, of the delinquent, remit the case to the enquiring authority, for further enquiry and report after recording its reasons in writing and the enquiring authority shall thereupon proceed to hold further enquiry as per Rule”.

- (d) In Regulation 8(A)(3) word “further” may be inserted in the last line after the word “any” and before the word “opportunity”.

- (e) Schedule A & B will be replaced by the following :-

Schedule A

Sl.No.	Category of Employees	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to clauses (i) to (ix) of Regulation (7))		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
1	Posts covered by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963.	Chairman  Central Govt.	(i) to (iv)  All	Central Govt.  Central Govt.
2	Class-I posts other than those covered by Section 24 (1)(a) of MPT Act, 1963 having pay scales two levels/four levels above Class-I entry scale or higher in respect of employees of KDS/HDC respectively.	Dy.Chairman  Chairman	(i) to (v)  All	Chairman  Central Govt.

3	All other Class I and Class II posts not included in Sl.No.1 and 2 above.	Dy.Chairman	All	Chairman
4	Class III	HOD(KDS)/ GM(HDC)	All	Dy.Chairman
5	Class IV	HOD(KDS)/ GM(HDC)	All	Dy.Chairman

## Schedule B

Sl.No.	Description of employee	Appointing authority
1	Posts covered by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963	Central Government
2	Class-I posts other than those covered by Section 24 (1)(a) of MPT Act, 1963 having pay scales two scales two levels/four levels above Class I entry scale or higher in respect of employees of KDS/HDC respectively.	Chairman
3	All other officers of Class I & Class II	Dy.Chairman (H)/(K)
4	Class III & IV	Heads of Departments in Kolkata Dock System and General Managers in Haldia Dock Complex.

[F.No. PR-12016/6/98-PE-1]

R. K. JAIN. Jt. Secy.

**Note :** The principal Regulations i.e. the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No.700(E) dated the 10<sup>th</sup> August, 1987. The Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) 1<sup>st</sup> Amendment Regulations, 1988 were also published in the Gazette of India, extra ordinary vide G.S.R. No.474(E) dated the 20<sup>th</sup> April, 1988 and Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Second Amendment Regulations, 1992 were published in the Gazette of India, Extra-ordinary vide G.S.R. No.372(E) dated 27<sup>th</sup> March, 1992.